



भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

PART-II Section 3-Sub-section(ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 415] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 2, 1978/भाद्र 11, 1900

No. 415] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 2, 1978/BHADRA 11, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य भागिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आवेदन संख्या 27/78

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1978

आयात व्यापार नियंत्रण

का० प्रा० 543(अ).--आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 (1947 का 18) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा (1) आयात व्यापार नियंत्रण आदेश सं० 11/78 दिनांक 3 अप्रैल, 1978 के अधीन जारी किए गए खुले सामान्य लाइसेंस सं० 5/78 और (2) आयात व्यापार नियंत्रण आदेश सं० 14/78 दिनांक 3 अप्रैल 1978 के अधीन जारी किए गए खुले सामान्य लाइसेंस सं० 8/78 में निम्नलिखित संशोधन करती है:--

- (1) खुले सामान्य लाइसेंस सं० 5/78 के लिए अनुसूची में मद सं० 51 के विवरण को इस प्रकार संशोधित किया जाएगा:—

“ताड़ का तेल, सभी प्रकार का किन्तु (क) परिष्कृत, विरजित एवं निर्गन्धी-कृत (आर बी डी) ताड़ का तेल और (ख) ताड़ ओलीइन को छोड़कर—खाद्य प्रयोजनों सहित सभी आवश्यकताओं के लिए” ।

- (2) खुले सामान्य लाइसेंस सं० 8/78 दिनांक 3 अप्रैल, 1978 के लिए अनुसूची में मद सं० 2(5) के विवरण को इस प्रकार संशोधित किया जाएगा:—

“परिष्कृत, विरजित एवं निर्गन्धीकृत (आर बी डी) ताड़ का तेल/ताड़ ओलीइन ताड़ बीज” ।

[मिसिल सं० आई पी सी/3/15/78 से जारी]

का० वें० शेपाद्रि
मुख्य निश्चिन्तक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

ORDER NO. 27/78

New Delhi, the 2nd September, 1978

IMPORT TRADE CONTROL

S.O. 543 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following amendments to (i) OGL No. 5/78 issued under ITC Order No. 11/78, dated the 3rd April, 1978 and (ii) OGL No. 8/78 issued under ITC Order No. 14/78 dated the 3rd April, 1978.

- (1) In the Schedule to OGL No. 5/78. the description of item No. 51 shall be amended as under :—

“Palm Oil, all types, excluding, however, (a) Refined, Bleached and Deodorised (RBD) Palm Oil and (b) Palmoleine—for all requirements including edible purposes.”

- (2) In the Schedule to OGL No. 8/78, dated 3rd April, 1978, the description of item No. 2(v) shall be amended as under :—

“Refined, Bleached and Deodorised (RBD) Palm Oil/Palm Oleine/Palm Seeds.”

[Issued from file No. IPC/3/15/78]

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports